

## Story for Intermediate Level

---

नमस्ते बच्चो,

यह हैं भारत की राजधानी दिल्ली. पहले दिल्ली बहुत अच्छा शहर था. यहाँ पर बड़े पेड़, हरियाली थी. यमुना नदी का पानी साफ था. इस शहर में कभी गंदगी नहीं थी .यहाँ का मौसम अच्छा था.

आज अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको यह सब बड़ी मुश्किल से दिखाई देगा. दिल्ली के पर्यावरण में बहुत बदलाव आया हैं. प्रदूषण की बड़ी समस्या है. पानी की कमी हैं. शहर में गंदगी बढ़ रही हैं. पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी हैं. पर्यावरण का संतुलन बिगड़नेसे पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ जाता हैं.

आज हम पर्यावरण दिन मनायेंगे। पर्यावरण दिन क्या हैं? इस दिन हम धरती की रक्षा करने की शपथ लेते हैं. आज हम हमारा पर्यावरण साफ रखने के लिए योजना बनायेंगे . पर्यावरण क्या हैं ? अपने आजू-बाजू में ये जो पेड़, पानी, आकाश, मिट्टी, पशु, पक्षी ये सब पर्यावरण का ही एक हिस्सा हैं. पर्यावरण में सजीव और निर्जीव चीजे हैं. सजीव और निर्जीव एक साथ रहते हैं.

विश्व पाँच तत्वोंसे बना हैं. आकाश, वायु, जल, अग्नि, और पृथ्वी. यह पाँच तत्व संतुलन में रहने की बहुत आवश्यकता हैं. इनका संतुलन बिगड़नेसे पुरे विश्व का संतुलन बिगड़ जाता हैं.

यह संतुलन क्यों बिगड़ता हैं? हवा,पानी, और ध्वनि के प्रदुषणसे यह संतुलन बिगड़ता हैं. आजकल सब जगह पेड़ काटकर बड़ी बड़ी इमारत बनाई जाती हैं. केमिकल्स, कूड़ा-कचरा, तेल इन सब हानिकारक चीजोंको नदियों में छोड़ा जाता हैं. उससे पानी में रहनेवाले प्राणियोंके जीवन को धोका पहुँचता हैं. आजकल हर शहर में कार, बस, स्कूटर, ट्रक इनकी संख्या बहुत बढ़ गयी हैं उनसे जो हानिकारक वायू निकलता है उससे प्रदुषण होता हैं.

भारतीय संस्कृति में पुराने काल से इन पाँच तत्वोंका महत्व माना गया हैं. दक्षिण भारत में इनके मंदिर भी हैं. आयुर्वेद में इन पाँच तत्व और अपने शरीर का कैसा संबध बताया हैं. पूरे विश्व के लिए इन पाँच तत्वोंको संतुलन में रखना बहुत आवश्यक हैं. बच्चो, आज इस पर्यावरण दिन के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ लेते हैं.

## Story for Intermediate Level

---

### Activity

Read the article.

Make three groups.

Students will discuss ways to protect the environment.

Students will discuss how they do recycling in their house.

How can they reduce the waste?

How can they reuse the items in daily life?

Make a brief oral presentation (3-5 minutes).

OR

Have a panel discussion on how to protect environment.